



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 292]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 1979/भाद्र 21, 1901

No. 292]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 1979/BHADRA 21, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(काष्ठ विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1979

सं० का० मि० 536(अ).—भा० व०/चीनी केन्द्रीय सरकार की राय है कि चीनी के साम्यापूर्ण वितरण और उचित कीमत पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्राकृतिक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न-विवक्षित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:—(1) इस आदेश का नाम चीनी (कीमती नियंत्रण) आदेश, 1979 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) खण्ड 4 सत्रह सितम्बर, 1979 को प्रवृत्त होगा और शेष खण्ड पुरस्कृत प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इस आदेश में,—

(क) “खण्ड” से इस आदेश का खण्ड अभिप्रेत है;

(ख) “व्योहारी” से चीनी के क्रय-विक्रय के कारबार में लगा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) “अनुसूची” से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(घ) “चीनी” से निर्वात कटाह प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित चीनी अभिप्रेत है।

3. चीनी की अधिकतम कारखाना-द्वारा कीमत—कारखाना-द्वारा प्रति किन्टन, कीमत, जिस पर अनुसूची 1 के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उत्पादित चीनी का विक्रय या विक्रय करने का करार किया जा सकता है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कीमत से अधिक नहीं होगी।

4. चीनी की अधिकतम फुटकर कीमत खण्ड 3 के उपबन्धों के अधीन रहने हुए, अनुसूची 2 के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कोई भी व्योहारी, सीधे या अपनी ओर से किसी व्यक्ति की माफ़स, चीनी का प्रतिकिलोग्राम उस कीमत से, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, अधिक फुटकर कीमत पर न तो विक्रय करेगा और न विक्रय करने का करार करेगा।

(1) कोई पुलिस अधिकारी जो सहायक उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या अपना यह समाधान करने के लिए कि इस आदेश का अनुपालन किया गया है—

(क) ऐसे किसी व्यक्ति या किसी नौका, मोटर या अन्य यान या किसी पाव को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जिसका प्रयोग चीनी के परिवहन के लिए किया गया है या किया जाना आशयित है;

(ख) किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा, उसकी तलाशी ले सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा ;

(ग) (1) चीनी के किसी ऐसे भण्डार को, अभिग्रहण कर सकेगा जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि इस आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है किया जा रहा है या किया जाने वाला है;

(2) किन्हीं ऐसे पैकेजों, भावरण या पात्रों को अभिग्रहण कर सकेगा जिनमें चीनी का ऐसा भण्डार पाया गया है;

(3) चीनी के ऐसे भण्डार के गहन के लिए प्रयुक्त जीवजन्तुओं, यानों, जलयानों या अन्य सवारियों का जब अभिग्रहण कर सकेगा जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे जीवजन्तु, यान, जलयान, या अन्य सवारियों, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के उपबन्धों के अधीन समपहृत किए जा सकते हैं और तत्पश्चात् इस प्रकार समपहृत पैकेजों, भावरणों, जीवजन्तुओं, जलयानों या अन्य सवारियों को न्यायालय में पेश करने तथा ऐसे पेश किए जाने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा या करने के लिए प्राधिकृत करेगा;

(घ) ऐसी लेखा बहियों या दस्तावेजों की, जो उनकी राय में इस आदेश के किसी उल्लंघन की बाबत किन्हीं कार्यवाहियों में लाभदायक या सुसंगत हो सकती हैं, परीक्षा कर सकेगा या उनका अभिग्रहण कर सकेगा तथा ऐसी लेखा बहियों या दस्तावेजों को उस व्यक्ति को, जिससे उनका अभिग्रहण किया गया था उस व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित, उनकी प्रतियां या उनके उद्घरण लेने के पश्चात् लौटा सकेगा।

(2) नवाशी और अभिग्रहण के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस आदेश के अधीन नवाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे।

अनुसूची 1

(खण्ड 3 देखिए)

राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कीमत
(1)	(2)
पंजाब	रुपए
हरियाणा	268.00
राजस्थान	
उत्तर प्रदेश	
बिहार	
मध्य प्रदेश	261.00
गुजरात	
महाराष्ट्र	
गोवा	
आंध्र प्रदेश	260.00
कर्नाटक	
केरल	
तमिलनाडु	
पच्छिमी बंगाल	270.00
आसाम	
नागालैण्ड	
उड़ीसा	

टिप्पण:—स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कीमतों के अन्तर्गत हैं:—(1) विक्रीय कर के बदले में आध्वारिक उत्पादशुल्क और अतिरिक्त उत्पादशुल्क; (2) कारखाने या गोदाम से गहन करने और केता के विकल्प पर कारखाना द्वार या गोदाम पर केता की गाड़ियों सारियों या परिवहन के अन्य साधनों पर भयवा रेल स्टेशन या अधिक से अधिक पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित साइडिंग में रेल बैगनों पर लदाई करने के प्रभार हैं तथा साइडिंग या बैगन खिचाई प्रभार; (3) टिक्ल सप बोरे की, जिसमें चीनी पैक का गई है, लागत; और

(4) निभार—प्रभार सहित सभी अन्य आनुवंशिक प्रभार।

अनुसूची 2

(खण्ड 4 देखिए)

राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कीमत रुपये
(1)	(2)
हरियाणा	रुपए
पंजाब	
राजस्थान	
जम्मू-कश्मीर	
देहली	2.98
हिमाचल प्रदेश	
चंडीगढ़	
उत्तर प्रदेश	
मध्य प्रदेश	3.00
बिहार	
पश्चिमी बंगाल	
उड़ीसा	
अन्धमान और निकोबार	2.91
आसाम	
नागालैण्ड	
मणिपुर	
त्रिपुरा	2.90
मेघालय	
सिक्किम	
अरुणाचल प्रदेश	
मिजोरम	3.00
गुजरात	
महाराष्ट्र	
दादरा और नागर हवेली	
गोवा, वमण और दीव	2.90
आंध्र प्रदेश	
तमिलनाडु	
कर्नाटक	
केरल	3.00
पच्छिमी बंगाल	
आसाम	
नागालैण्ड	
उड़ीसा	2.90
पश्चिमी बंगाल	
आंध्र प्रदेश	
तमिलनाडु	
कर्नाटक	2.90
केरल	
पच्छिमी बंगाल	
आसाम	
नागालैण्ड	3.00
उड़ीसा	
पश्चिमी बंगाल	
आंध्र प्रदेश	

टिप्पण:—स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कीमतों के अन्तर्गत पूर्ण या कोई अन्य स्थानीय कर नहीं हैं।

[सं० 1-33/79-एस० पी० आई० (ब्लैक 2)]

सी० एन० रायचन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 12th September, 1979

G.S.R. 536 (E)/Ess.Com./Sugar.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for securing equitable distribution and availability at fair prices of sugar ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1 Short title, extent and commencement.—(1) This Order may be called the Sugar (Price Control) Order, 1979.

(2) It extends to the whole of India.

(3) Clause 4 shall come into force on the 17th September, 1979 and the remaining clauses shall come into force at once.

2. Definitions. —In this Order, —

(a) "clause" means clause of this Order;

(b) "dealer" means a person engaged in the business of the purchase or sale of sugar;

(c) "Schedule" means Schedule annexed to this Order;

(d) "sugar" means sugar manufactured by vacuum pan process.

3. Maximum ex-factory price of sugar.—The ex-factory price at which sugar produced in any State or Union territory specified in column (1) of Schedule I may be sold or agreed to be sold, shall not exceed the price specified in the corresponding entry in column (2) thereof per quintal.

4. Maximum retail price of sugar.—Subject to the provisions of clause 3, no dealer in a State or Union territory specified in column (1) of Schedule I shall, either directly or by any person on this behalf, sell or agree to sell sugar at a retail price exceeding the price specified in the corresponding entry in column (2) thereof per kilogram.

5. Powers of entry, examination, search, seizure.—(1) Any Police Officer, not below the rank of Assistant Sub-Inspector or any other Officer authorised in this behalf by the Central Government or the State Government may, with a view to securing compliance with this Order or to satisfying himself that this Order has been complied with,—

(a) stop and search any person or any boat, motor or other vehicle or any receptacle used or intended to be used for the transport of sugar;

(b) enter, search and examine any place;

(c) seize—

(i) any stock of sugar in respect of which he has any reason to believe that a contravention of any of the provisions of this Order has been, is being, or is about to be committed ;

(ii) any packages, covering or receptacles in which such stock of sugar is found ;

(iii) the animals, vehicles, vessels or other conveyances used in carrying such stock of sugar if he has reason to believe that such animals, vehicles, vessels, or other

conveyances are liable to be forfeited under the provisions of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of the packages, coverings, receptacles animals, vessels or other conveyances so seized in a court and for their safe custody pending such production ;

(d) examine or seize any books of accounts or documents which, in his opinion, would be useful for, or relevant to, any proceedings in respect of any contravention of this Order and return such books of accounts and documents to the person from whom they were seized after copies thereof or extracts therefrom, as certified by that person, have been taken.

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to search and seizure, shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this Order.

SCHEDULE I

(See clause 3)

Name of the State or Union territory (1)	Price (2)
Punjab Haryana Rajasthan Uttar Pradesh Bihar Madhya Pradesh	(Rupees) 268.00
Gujarat Maharashtra	 261.00
Goa Andhra Pradesh Karnataka Kerala Tamil Nadu Pondicherry	 260.00
Assam Nagaland Orissa West Bengal	 270.00

Note.—The prices specified in column (2) include—

(i) the basic excise duty and additional excise duty in lieu of Sales tax;

(ii) charges on transport from factory or godowns and loading at buyer's option into buyer's carts, lorries or other means of transport at the factory gate or godowns, or into railway wagons at the railway station or siding within a distance not exceeding five kilometers and also include siding or wagon hauling charges;

(iii) the cost of A Twill new gunny bag in which sugar is packed; and

(iv) all other incidental charges including dunnage charges

SCHEDULED II (See clause 4)		(1)	(2)
Name of the State or Union territory (1)	Price (2)		
Haryana	2.98	Nagaland	3.00
Punjab		Manipur	
Rajasthan		Tripura	
Jammu & Kashmir		Meghalaya	
Delhi		Sikkim	
Himachal Pradesh		Arunachal Pradesh	
Chandigarh		Mizoram	
Uttar Pradesh		Gujarat	2.91
Madhya Pradesh	3.00	Maharashtra	
Bihar		Dadra & Nagar Haveli	
West Bengal		Goa, Daman & Diu	2.90
Orissa		Andhra Pradesh	
Andaman & Nicobar		Tamil Nadu	
Assam		Karnataka	
		Kerala	3.00
		Pondicherry	
		Lakshadweep Islands	

Note.—The prices specified in column (2) do not include octroi or any other local taxes.

[No. 1-33/79-SPY (Desk-II)]

C. N. Raghavan Joint Secy.